



व्यवसाय योजना बुनाई

आय सृजन गतविधि

(शॉल व स्टॉल)



महालक्ष्मी समान रुची समूह

ग्रामीण वन विकास समिति कन्नौन

वन परिक्षेत्र सैन्ज

सराज वन मण्डल

जिला कुल्लू हि0प्र0।

प्रायोजक:

हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तन्त्र प्रबंधन
और आजीविका सुधार परियोजना पौटर हिल शिमला

प्रस्तुति:

वन परिक्षेत्र सैन्ज
सराज वन मण्डल
जिला कुल्लू हि0प्र0।

अनुक्रपणिका

कं०सं०	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	कार्यकारिणी सारांश	4 – 5
2.	स्वयं सहायता समूह/समान रुची समूह का विवरण	5 – 6
3.	गांव की भौगोलिक स्थिति	6
4.	आय सृजन गतिविधि से सम्बन्धित उत्पाद का विवरण	7
5.	उत्पादन की प्रक्रियाओं का विवरण	7
6 क	उत्पादन हेतु नियोजन का विवरण	7
6 ख	कच्चे माल की आवश्यकता एवं अनुमानित उत्पादन	8 – 9
7.	विपणन/बिक्री का विवरण	10
8.	समूह सदस्यों के मध्य प्रबंधन का विवरण	10 – 11
9.	शक्ति, दुर्बलता, अवसर तथा चुनौती का विश्लेषण (SWOT Analysis)	11
10.	जोखिमों/चुनौतियों का विवरण	11 – 12
11.	परियोजना की अर्थव्यवस्था का विवरण	12
11क	पूँजीगत व्यय	12
11ख	आवर्ती व्यय	13 – 15
12.	अर्थव्यवस्था का सारांश	16
13.	अनुमानित विक्रय मूल्य की गणना	16
14.	उद्यम हेतु लागत-लाभ विश्लेषण	16 – 17
15.	स्वयं सहायता समूह/समान रुची समूह को धन की आवश्यकता	17
16.	समूह के वित्तीय संसाधन	17 – 18
17.	धनराशि की आवश्यकता का नियोजन	18
18.	लाभ-हानि बिन्दु/स्थिति की गणना	19
19.	ऋण चुकौती की अनुसूची	19 – 20
20.	टिप्पणी	20
21.	स्वयं सहायता समूह के नियमों की सूची	21– 22

Approved.

Approved
4
JICA
DMU-Seraj

Divisional Forest Officer
Seraj Forest Division
at Banjar

1. कार्यकारिणी सारांश

गांव कन्नौन ग्राम पंचायत कन्नौन विकास खण्ड कुल्लू, तहसील सैन्ज जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कुल्लू जिले की घाटियों को भौतिक संरचना के अनुसार तरह-तरह के नाम दिए गये हैं, जिनमें एक नाम कन्नौन है। गांव कन्नौन कुल्लू मुख्यालय से लगभग 60 कि० मी० की दूरी पर लारजी में स्थित है। गांव कन्नौन में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि व बागवानी है परन्तु सिंचाई की उचित व्यवस्था ना होने के कारण लोगों को उनकी आय में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हो रही है। अधिकतर लोगों के पास बहुत कम जमीन है, जिसके कारण उनकी आजीविका का निर्वाह ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। जीवन निर्वाह को अच्छा करने के लिए लोग नगदी फसल व बागवानी के कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं।

गांव में लोग स्टॉल, शॉल बुनाई के कार्य कर भी रहे हैं, परन्तु उत्पादन पारम्परिक तरीके से होता है इससे उत्पादन कम और आय भी कम होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए तथा ऊनी उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने के लिए इन महिलाओं को उन्नत किस्म के यन्त्रों के बारे में जो इस उत्पादन के लिए उपयुक्त है कि जानकारी की आवश्यकता है। भौगोलिक स्थिति के अनुसार इस क्षेत्र में वर्ष भर उत्पादों की आवश्यकता रहती है। इस लिए उचित प्रशिक्षण एवं आधुनिक यन्त्रों का उपयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। समय-समय पर मांग व फैंशन नये उत्पाद तैयार करने की भी आवश्यकता है।

हिमाचल प्रदेश वन परितन्त्र एवं आजीविका सुधार परियोजना ने गांव में ग्राम वन समिति कन्नौन के गठन के बाद लोगों को आजीविका के साधन बढ़ाने के लिए समूह में कार्य करने के बारे में बताया। परियोजना के माध्यम से सपांगनी में 02 स्वयं सहायता समूहों का गठन "महालक्ष्मी" स्वयं सहायता समूह व "देव ब्रह्मा" स्वयं सहायता समूह के रूप में किया गया। इसके बाद "महालक्ष्मी" स्वयं सहायता समूह ने स्टॉल, शॉल बुनाई कार्य करने का निर्णय लिया। इस समूह में 07 सदस्य जिनमें महिलाएं शामिल हुए तथा इस समूह को "महालक्ष्मी" समान रुची समूह का नाम दिया गया।

"महालक्ष्मी" समान रुची समूह के साथ स्टॉल और शॉल बुनाई के विशेषज्ञों की राय, सुझावों व अनुभवों के आधार पर समूह के सदस्यों ने स्टॉल और शॉल आदि बनाने का निर्णय लिया है।

"महालक्ष्मी" समान रुची समूह की आजीविका वर्धन व्यवसाय योजना बनाने के लिए श्री जी० एस० चंदेल हि० प्र० वन सेवा (सेवानिवृत्त), श्री जोगिन्दर सिंह हि० प्र० वन सेवा (सेवानिवृत्त), श्रीमति फुला देवी एफ० टी० यू० कॉडीनेटर जाइका टीम, वन विभाग अधिकारी एवं समूह सदस्यों ने सैन्ज वन परिक्षेत्र में शाल स्टॉल बुनाई के विशेषज्ञ से बार-बार बैठके

की। परियोजना निर्देशक, वन मण्डलाधिकारी के मार्गदर्शन से इस आजीविका वर्धन व्यवसाय योजना को अन्तिम रूप दिया।

2. स्वयं सहायता समूह/समान रूची समूह का विवरण

2.1	समान रूची समूह का नाम	महालक्ष्मी-कन्नौन
2.2	समान रूची समूह की सूचना प्रणाली प्रबंधन की नियमावली	नियमावली पृष्ठ नं० 26 पर संलग्न है।
2.3	ग्राम वन विकास समिति	कन्नौन
2.4	वन परिक्षेत्र	सैन्ज
2.5	वन मण्डल	सराज
2.6	गांव	जौहल
2.7	विकास खण्ड	बन्जार
2.8	ज़िला	कुल्लू
2.9	समान रूची समूह में कुल सदस्यों की संख्या	07
2.10	समूह के गठन की तिथि	19.06.2020
2.11	बैंक खाता संख्या	39866658955
2.12	बैंक का नाम और शाखा जहां समूह का खाता संचालित है	भारतीय स्टेट बैंक सैन्ज, कुल्लू
2.13	स्वयं सहायता समूह/समान रूची समूह की मासिक बचत	700
2.14	कुल बचत	11000
2.15	सदस्यों को आपस में दिया गया ऋण	0
2.16	नकदी जमा करने की सीमा	
2.17	चुकोती की स्थिति	12 महीने

समान रूची समूह की सूची

क्र.स.	लाभार्थी का नाम व पता	पद	आयु	लिंग	योग्यता	श्रेणी	सम्पर्क
1.	श्रीमति निमर्ला देवी पत्नी श्री रोशन लाल	प्रधान	42	स्त्री	5वीं	सामान्य	8580690998
2.	श्रीमति गीता देवी पत्नी श्री यान सिंह	सचिव	37	स्त्री	5वीं	सामान्य	8628875630
3.	श्रीमति खीला मणी पत्नी श्री सुभाष	कोषाध्यक्ष	35	स्त्री	12वीं	सामान्य	8544786679
4.	श्रीमति रेवा देवी पत्नी श्री खुब राम	सदस्य	34	स्त्री	5वीं	सामान्य	7807894135
5.	श्रीमति विमला देवी पत्नी श्री हुकम सिंह	सदस्य	35	स्त्री	5वीं	सामान्य	8219624346
6.	श्रीमति मनोरमा देवी पत्नी	सदस्य	19	स्त्री	12वीं	सामान्य	7876280667

	श्री मनीष कुमार						
7.	श्रीमति कविता देवी पत्नी श्री तेजस्वी राम	सदस्य	24	स्त्री	12वी	एस.सी	8580480667



3. गांव की भौगोलिक स्थिति

3.1	जिला मुख्यालय से दूरी	सड़क से 60 कि० मी० व पैदल 3 कि० मी०
3.2	मुख्य/लिंक सड़क से दूरी	सड़क से 06 कि० मी० व पैदल 3 कि० मी०
3.3	स्थानीय बाजार का नाम और दूरी	सैन्ज 11 कि०मी०
3.4	प्रमुख बाजार का नाम और दूरी	कुल्लू 60 कि०मी०, भून्तर 50 कि०मी० व सैन्ज 11 कि०मी०
3.5	प्रमुख शहरों से दूरी	कुल्लू 60 कि०मी०, भून्तर 50 कि०मी०
3.6	मुख्य शहरों के नाम जहां उत्पाद का बिक्रय/ विपणन किया जाएगा	कुल्लू, भून्तर
3.7	प्रस्तावित आय सृजन गतिविधि के सम्बन्ध में गांव की कोई विशेष सूचना	शॉल, स्टॉल बनाते हैं।
3.8	पिछले/ पूर्व और आगामी सम्पर्कों की स्थिति	लगातार बैठके की जा रही है और शॉल, स्टॉल बुनाई की जानकारी सांझा की जा रही है।

4. आय सृजन गतिविधि से सम्बन्धित उत्पाद का विवरण

4.1	उत्पाद का नाम	शॉल, स्टॉल
4.2	उत्पाद की पहचान की पद्धति	कुछ सदस्य शॉल, स्टॉल का कार्य पहले से ही करते हैं।
4.3	स्वयं सहायता समूह / समान रुची समूह / सदस्यों की सामुहिक सहमति	हाँ

5. उत्पादन की प्रक्रियाओं का विवरण

सर्वप्रथम समान रुची समूह के सदस्यों को परियोजना द्वारा पटटू, शॉल, स्टॉल आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के उपरान्त समूह के सदस्यों द्वारा उत्पाद तैयार करने में निम्न प्रक्रिया की जाएगी :-

1. शॉल, स्टॉल मशीन द्वारा लगवाएंगे। इससे समय और उत्पादों की मजदूरी दर का खर्चा कम होगा।
2. समूह के 3 सदस्य शॉल बनाने का कार्य करेंगे।
3. समूह के 4 सदस्य स्टॉल बनाने का कार्य करेंगे।
4. सदस्य बारी-बारी विपणन करेंगे व कच्चा माल भी लाएंगे।
5. समूह के सदस्य प्रति दिन 4 से 5 घण्टे कार्य करेंगे।

प्रशिक्षण के उपरान्त समूह द्वारा निम्नलिखित उत्पादों का कार्य किया जाएगा। जिसका विवरण इस प्रकार से है:-

डिजाइनदार शॉल और स्टॉल सदस्यों द्वारा तैयार किया जाएगा। 03 सदस्य द्वारा प्रतिमाह प्रति सदस्य 15 शॉल और 04 सदस्य द्वारा प्रतिमाह प्रति सदस्य 40 स्टॉल तैयार किये जाएंगे।

6.क उत्पादन हेतु नियोजन का विवरण

6.1	उत्पादन चक्र (दिनों में) 30 दिन (प्रतिदिन 4-5 घण्टे कार्य करेंगे)	❖ 45 शॉल ❖ 160 स्टॉल
6.2	प्रति चक्र कार्यकर्ताओं की आवश्यकता (संख्या)	❖ 03 सदस्य शॉल के लिए ❖ 04 सदस्य स्टॉल के लिए ❖ कुल 07 सदस्य
6.3	कच्चे माल का स्रोत	सैन्ज, भुन्तर, कुल्लू
6.4	अन्य संसाधनों का स्रोत	सैन्ज, भुन्तर, कुल्लू

6. ख कच्चे माल की आवश्यकता एवं अनुमानित उत्पादन

अ.

सामग्री	उन किस्म	मात्रा प्रति नग (कि० ग्रा०)	कार्यरत सदस्य संख्या	नग संख्या प्रति सदस्य प्रति दिन	कुल नग संख्या प्रति 30 दिन	उन की मात्रा प्रति चक्कर (कि० ग्रा०)
	ताना+बाना उन	0.4	3	0.5	45	18
शॉल	केशमिलोन	0.025	3	0.5	45	1.125
	ताना+बाना उन	0.26	4	1.33	160	41.6
स्टॉल	केशमिलोन	0.015	4	1.33	160	2.4

ब.

समग्री	ईकाई	शॉल	स्टॉल	कुल	दर प्रति कि० ग्रा०	राशि
ऊन	कि० ग्रा०	18	41.6	59.6	850	50660
केशमिलोन	कि० ग्रा०	1.125	2.4	3.525	440	1551
डोरी	रुपये प्रति नग	45	160	205	20	4100
कुल						56311

क्र० स०	माह	शॉल, स्टॉल, ताना-बाना के लिए ऊन				शॉल, स्टॉल, फूल के लिए केशमिलोन			शॉल, स्टॉल, फूल के लिए डोरी	योग	टिप्पणी
		मात्रा (कि० ग्रा०)	दर	राशि	मात्रा (कि० ग्रा०)	दर	राशि				
		इकाई							राशि		
1	अप्रैल	कि० ग्रा०	59.6	850	50660	3.525	440	1551	4100	56311	
2	मई	कि० ग्रा०	59.6	850	50660	3.525	440	1551	4100	56311	
3	जून	कि० ग्रा०	59.6	850	50660	3.525	440	1551	4100	56311	
4	जुलाई	कि० ग्रा०	59.6	850	50660	3.525	440	1551	4100	56311	
5	अगस्त	कि० ग्रा०	59.6	850	50660	3.525	440	1551	4100	56311	
6	सितम्बर	कि० ग्रा०	59.6	850	50660	3.525	440	1551	4100	56311	
7	अक्टूबर	कि० ग्रा०	59.6	850	50660	3.525	440	1551	4100	56311	
8	नवम्बर	कि० ग्रा०	59.6	850	50660	3.525	440	1551	4100	56311	
9	दिसम्बर	कि० ग्रा०	59.6	850	50660	3.525	440	1551	4100	56311	
10	जनवरी	कि० ग्रा०	59.6	850	50660	3.525	440	1551	4100	56311	
11	फरवरी	कि० ग्रा०	59.6	850	50660	3.525	440	1551	4100	56311	
12	मार्च	कि० ग्रा०	59.6	850	50660	3.525	440	1551	4100	56311	

● प्रत्येक चक्र (प्रति माह) में शॉल 45 और स्टॉल 160 तैयार किए जाएंगे।

महा लक्ष्मी - कनौन - सैन्ज - सराज - कुल्लू - हि०प्र०।

7. विपणन/बिक्री का विवरण

7.1	सम्भावित विपणन स्थल	सैन्ज, भुन्तर, कुल्लू
7.2	इकाई से दूरी	8 से 45 कि० मी०
7.3	मण्डी स्थल/ स्थलों में उत्पाद की मांग	सैन्ज, भुन्तर, कुल्लू
7.4	बाजार की पहचान की प्रक्रिया	समूह द्वारा अपनी क्षमता व स्थानीय मांग के आधार • विक्रेताओं की सूची बनाना। • विक्रेताओं से सम्पर्क।
7.5	विपणन पर मौसम का प्रभाव	सर्दी में ज्यादा मांग
7.6	उत्पाद के संभावित खरीद दार	स्थानीय लोग, शहरी लोग, पर्यटक
7.7	क्षेत्र में संभावित उपभोक्ता	किरायेदार, नौकरी वाले, बाहरी लोग
7.8	उत्पाद का विपणन तंत्र	• दुकानदारों से सम्पर्क। • अपना बिक्री केन्द्र • मेलों में स्टाल/ प्रदर्शनी • विभिन्न कार्यालय • धार्मिक स्थलों
7.9	उत्पाद की विपणन रणनीति	■ थोक व्यापारी ■ परचून व्यापारी ■ एजेंट 5 ..10 प्रतिशत सब्सिडी ■ लोकल नेटवर्क में प्रचार ■ सोशल मीडिया में प्रचार
7.10	उत्पाद का छाप निर्धारण	महालक्ष्मी-कन्नौन
7.11	उत्पाद का "नारा"	जन-जन तक संदेश पहुंचाना है, आत्मर्भर बनना और पर्यावरण बचाना है।

8. समूह सदस्यों के मध्य प्रबंधन का विवरण

- प्रबंधन के लिए नियम बनाये जाएंगे।
- समूह के सदस्य आपसी सहमति से कार्यों का बंटवारा करेंगे।
- बंटवारा कार्य की कुशलता व क्षमता के आधार पर किया जाएगा।
- लाभ का बंटवारा भी कार्य की गुणवत्ता व कुशलता तथा मेहनत के आधार पर किया जाएगा।
- विपणन करने वाले सदस्य को कुल विक्री राशि पर 05 प्रतिशत कमीशन दी जाएगी।
- विपणन में अनुभव रखने वाले 04 सदस्य बारी - बारी से विपणन करेंगे।

- प्रधान व सचिव प्रबन्धन का मुल्यांकन एवं अवलोकन समय – समय पर करते रहेंगे।

9. शक्ति, दुर्बलता, अवसर तथा चुनौती का विश्लेषण (SWOT Analysis)

शक्ति

- महिलाओं में कार्य करने की लग्न है।
- पहले से ही कुछ सदस्य ख़वैटर बुनाई का काम करते हैं।
- समूह में अनुभवी सदस्य भी है।

दुर्बलता

- कुछ गांव सड़क से जुड़े नहीं है।
- महिलाएँ कृषि व पशुपान के कार्य भी करती हैं।
- कार्य के लिए 2 से 3 घण्टें का समय ही निकाल पाना।
- समूह में कार्य पहली बार कर रहे हैं।

अवसर

- हि0 प्र0 वन परितन्त्र प्रबन्धन परियोजना से सहयोग व निधि मिलेगी।
- प्रशिक्षण से कुशलता व क्षमता में बढ़ौतरी होगी।
- समूह में महिलाएँ हैं।
- उत्पादकों की लोकल व शहरों में मांग है।
- कुल्लू व मनाली पर्यटक स्थल है।

चुनौती

- अच्छे उत्पाद तैयार ना करना।
- बाज़ार की स्थिति (डिमांड) को ना समझना।
- अन्य उत्पाद केन्द्रों से प्रतिस्पर्धा।
- उपभोक्ताओं से तालमेल की कमी।
- अन्य (कृषि बागवानी व पशुपालन) कार्यों में व्यवस्थता।

10. जोखिमों/चुनौतियों का विवरण

क्र0 सं0	जोखिमों/ चुनौतियों का विवरण	जोखिम कम करने के उपाय
10.1	बाज़ार की स्थिति (डिमांड) को ना समझना।	समय – समय पर बाज़ार की मांग के अनुसार चलना।
10.2	अच्छे उत्पाद तैयार ना करना।	उपभोक्ताओं के मनपसन्द उत्पाद तैयार करना।
10.3	अन्य उत्पाद केन्द्रों से प्रतिस्पर्धा।	अन्य उत्पाद केन्द्रों से बेहतर

		उत्पाद बनाना व शरू में कम लाभ कमाना।
10.4	उपभोक्ताओं से तालमेल की कमी।	उपभोक्ताओं से हमेशा सम्पर्क में रहना।
10.5	कृषि बागवानी व पशुपालन कार्यों में ज्यादा व्ययता।	कृषि बागवानी व पशुपालन और घर के अन्य कार्यों के साथ – साथ शाल स्टॉल बुनाई में ध्यान देना।
10.6	समूह में बंटवारा	आय में बंटवारा कुशलता व क्षमता के आधार पर करना। पार्दर्शिता से कार्य करना।
10.7	उत्पाद की गुणवत्ता घटने से विक्री कम हो सकती है।	गुणवत्ता बनाये रखने के लिए समूह को उच्च मापदण्ड रखने होंगे।

11. परियोजना की अर्थव्यवस्था का विवरण

11 क – पूंजीगत व्यय

क्र० सं०	विवरण	संख्या	दर	राशि
1	शॉल के लिए 50 इंच खड्डी, कर्घे इत्यादि सामान के साथ	3	16000	48000
2	शॉल के लिए 40 इंच खड्डी, कर्घे इत्यादि सामान के साथ	4	14000	56000
3	चरखा, उरी सामान के साथ	3	2000	6000
4	कैन्ची	4	200	800
	योग			110800

11 ख - आवर्ती व्यय (एक चक्र में)

क्र०स०	विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1.	किराया (बस)	दिन	7	500	3500
2.	किराया (दुकान)	महीना	1	3000	3000
	योग				6500

क्र० सं०	समग्री	कार्यरत सदस्य संख्या-4 घंटे प्रतिदिन	उत्पादन प्रति माह	विवरण	इकाई	मात्रा (कि० ग्रा०) / संख्या	छर	उत्पादन मूल्य प्रति नग	माल की आवश्यकता प्रति माह	राशि	लाभ 30%	ध्वक्य मूल्य	वर्तमान बाजार भाव
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	शॉल	3	45	ताना ऊन		कि० ग्रा०	0.2	850	170	9	7650		
			45	बाना ऊन		कि० ग्रा०	0.2	850	170	9	7650		
			45	फूल केशमिलोन		कि० ग्रा०	0.025	440	11	1.125	495		
			45	गांठे देना		रु/शॉल	1	10	10	45	450		
			45	डोरी		रु/शॉल	1	20	20	45	900		
			45	धुलाई		रु/शॉल	1	50	50	45	2250		

			45	पैकिंग व टैगिंग	रु/शॉल	1	10	10	45	450		
			45	दुलाई 7 दिन और कमरे का किराया	रु/शॉल	1	31.7	31.7	45	1427		
			45	वेतन व मजदूरी	रु/शॉल	1	300	300	45	13500		
		3	45					773		34772	232	1005
		4	160	ताना ऊन	कि० ग्रा०	0.13	850	110.5	20.8	17680		
			160	बाना ऊन	कि० ग्रा०	0.13	850	110.5	20.8	17680		
			160	फूल केशमिलोन	कि० ग्रा०	0.015	440	6.6	2.4	1056		
			160	गांठे देना	रु/शॉल	1	10	10	160	1600		
			160	डोरी	रु/शॉल	1	20	20	160	3200		
			160	धुलाई	रु/शॉल	1	50	50	160	8000		
			160	पैकिंग व टैगिंग	रु/शॉल	1	10	10	160	1600		
			160	दुलाई 7 दिन और कमरे का किराया	रु/शॉल	1	31.7	31.7	160	5072		
							112.					
			160	वेतन व मजदूरी	रु/शॉल	1	5	112.5	160	18000		

[illegible]

12 अर्थव्यवस्था का सारांश उत्पादन की लागत

क्र० सं०	विवरण	धनराशि
1.	कुल आवर्ती लागत	108660
2.	पूँजीगत व्यय पर 10 प्रतिशत वार्षिक ह्रास	923
3.	ऋण पर 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज	741
	योग	110324

13 अनुमान विक्रय मूल्य की गणना

सामग्री	सामग्री संख्या प्रति माह	उत्पादन मूल्य	लाभ (30:)	विक्रय मूल्य	विक्रय मूल्य प्रति नग	बर्तमान बाजार भाव
शॉल	45	34772	10431	45203	1005	1200
स्टॉल	160	73888	22166	96054	600	650
कुल	205	108660	32598	141257		
पूँजीगत व्यय पर 10 प्रतिशत वार्षिक		923				
ऋण पर 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज		741				
योग		110324				

14 उद्यम हेतु लागत— लाभ विश्लेषण (एक चक्र में यानि 01 महीना में)

क्र०	विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	पूँजीगत व्यय पर 10 % वार्षिक ह्रास (अ)				923
2	आवर्ती व्यय (ब)				110324
3	कुल लाभ $141257 - (108660 + 923 + 741)$				30934
4	उत्पाद की विक्री से सकल लाभ (कुल लाभ + मजदूरी + किराया) $30934 + 31500 + 3000$				65434
	एक चक्र के उपरान्त लाभ के रूप में सदस्यों के मध्य वितरण हेतु				19034

5	उपलब्ध धनराशि = उत्पाद की विक्री से आय - (मूलधन व ब्याज वापसी हेतु वांछित धनराशि + दूसरे चक्र हेतु आवश्यक आवर्ती व्यय) $141257 - (11900 + 108660 + 923 + 741)$	
6	शुद्ध सकल लाभ प्रति सदस्य = सकल लाभ - (कमरे का किराया + वार्षिक ह्रास + ब्याज) / सदस्य संख्या $65625 - (3000 + 923 + 741) = 60770 / 7$	8681

15. स्वयं सहायता समूह/समान सूची समूह को धन की आवश्यकता

क्र०	मद	कुल व्यय	परियोजना द्वारा अंशदान 50 %	समूह द्वारा अंशदान 50 %		समूह को ऋण की आवश्यकता	टिप्पणी
				नगद 25 %	ऋण 25 %		
1	पूँजीगत व्यय	110800	55400	27700	27700	55400	समूह 25% नगद अंश अपनी प्रथम 2 माह के वेतन से अदा करेगा यद्यपि समूह को अपना हिस्सा नगदी अदा करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है
2	आवर्ती व्यय	110283				78783	राशी वेतन घटा कर है
3	अन्य व्यय					0	
	योग					134183	
	समूह को ऋण की आवश्यकता लगभग राशि					134183	

नोट : - चूंकि मजदूरी का प्रबन्ध समूह के सदस्य स्वयं करेंगे अतः इसके लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता नहीं होगी इसलिए समूह की वित्तीय आवश्यकता में दिये गये आवर्ती व्यय में मजदूरी नहीं जोड़ा गया है।

16. समूह के वित्तीय संसाधन

क्र०	विवरण	धनराशि	टिप्पणी
1	परियोजना द्वारा उपलब्ध करायी गयी सहायता कोष	55400	
2	समूह की अतिरिक्त बचत	11000	
3	मेंचिंग ग्रांट	0	

4	रीवोल्विंग फंड	100000	ऋण के लिए गारंटी के रूप पर उपयोग किया जाएगा
5	5% ब्याज सबसीडी	3707	
	कुल	170107	

परियोजना द्वारा 100000/- रुपये राशि बीज कोष के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।
इस बीज कोष के आधार पर ही समूह के सदस्य बैंक से ऋण लेंगे।

16 ब- ब्याज की गणना

समूह को ऋण की आवश्यकता	12% ब्याज	योग	किश्त	5% ब्याज	7% ब्याज
134183	8896	143078 ⁹ 772	11900	3707	5189

17. धनराशि की आवश्यकता का नियोजन

क्र० सं०	विवरण	राशि
1	शॉल के लिए 50 इंच खड्डी, कर्घे इत्यादि सामान के साथ	24000
2	शॉल के लिए 40 इंच खड्डी, कर्घे इत्यादि सामान के साथ	28000
3	चरखा, उरी सामान के साथ	3000
4	कैन्ची	400
	योग	55400
	कच्चा माल	78783
	कुल योग	134183

18. लाभ – हानि बिन्दु/स्थिति की गणना (ब्रेक इविन प्वाइन्ट)

समग्री	पूँजीगत व्यय	विक्री मूल्य प्रति सामग्री नग	उत्पादन प्रति सामग्री नग	लाभ प्रति सामग्री नग	नग उत्पादन प्रति दिन	कुल लाभ प्रति दिन (5×6)	पूँजीगत व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक दिन	ब्रेक इविन प्वाइन्ट
1	2	3	4	5	6	7	8	
शॉल	110800	1005	773	232	3	696		
स्टॉल		600	462	139	5.33	741		
कुल	110800					1437	77.11	3 महीने

इस प्रक्रिया में उरोक्त उत्पाद की विक्री के इसी अनुपात के अनुसार 3 माह में सम विच्छेदन बिन्दू प्राप्त किया जा सकता है।

19. ऋण चुकौती की अनुसूची

क्र०	महीना	ऋण वापसी			संचयी ऋण वापसी	अवशेष ऋण		
		मूलधन	ब्याज	कुल		मूलधन	ब्याज	कुल
1	महीना-1					134183	1342	135525
2	महीना-2	10558	1342	11900	11900	123625	1236	124861
3	महीना-3	10664	1236	11900	23800	112961	1130	114091
4	महीना-4	10770	1130	11900	35700	102191	1022	103213
5	महीना-5	10878	1022	11900	47600	91313	913	92226
6	महीना-6	10987	913	11900	59500	80326	803	81129
7	महीना-7	11097	803	11900	71400	69229	692	69921
8	महीना-8	11208	692	11900	83300	58021	580	58601
9	महीना-9	11320	580	11900	95200	46701	467	47168
10	महीना-10	11433	467	11900	107100	35268	353	35621
11	महीना-11	11547	353	11900	119000	23721	237	23958
12	महीना-12	11663	237	11900	130900	12058	121	12179
13	महीना-13	12058	121	12179	143079	0	0	0
	योग	134183	8896	143079			8896	

- 12% वार्षिक ब्याज की गणना प्रति माह घटाते हुऐ मूलधन के आधार पर की गई है।
- समायोजन के कारण अन्तिम ई0एम0आई0 नियमति ई0एम0आई0 से कम या अधिक हो सकती है।

20. टिप्पणी

समूह द्वारा प्रथम चक्र में 205 नग यानि 45 शॉल, 160 स्टॉल तैयार करके विक्रय किए जाएंगे।



21. स्वयं सहायता समूह के नियमों की सूची

1. समूह का नाम : महालक्ष्मी-कन्नौन
2. समूह का पता : गांव जौहल डा0 कन्नौन उप तहसील सैन्ज जिला कुल्लू
3. समूह के कुल सदस्य : 07
4. समूह की पहली बैठक की तिथि : 19.06.2020
5. समूह में हर 100 रुपए पर 2 रुपए ब्याज होगा।
6. समूह की मासिक बैठक हर माह की 10 तारीख को होगी।
7. समूह के सभी सदस्य हर माह की बचत की गई राशि को समूह में जमा करेंगे।
8. स्वयं सहायता समूह की बैठक में सभी सदस्य को शामिल होना पड़ेगा।
9. स्वयं सहायता समूह का खाता 39866658955 में खोला जाएगा खाता संख्या नंबर भारतीय स्टेट बैंक सैन्ज है।
10. समूह ही बैठक में गैर हाज़िर रहने के लिए प्रधान व सचिव को उचित कार्य बता कर अनुमति लेनी होगी।
11. समूह में जो बचत की राशि जमा नहीं करवाते या 3 बैठकों तक समूह से गैर हाज़िर रहते हैं तो उस व्यक्ति को समूह से निकाल दिया जाएगा।
12. समूह में जो व्यक्ति कारण बताए बगैर गैर हाज़िर रहता है तो अगली बैठक उस व्यक्ति के घर में होगी जिसका खर्च उस व्यक्ति को खुद करना होगा अगर दो सदस्य होंगे तो खर्च मिलकर देना होगा।
13. स्वयं सहायता समूह के प्रधान व सचिव सर्व सहमति से चुने जाएंगे।
14. प्रधान व सचिव बैंक से लेन देन कर सकते हैं, यह पद एक वर्ष तक मान्य होगा।
15. प्रधान, सचिव या सदस्य समूह के विरुद्ध कोई काम नहीं करेगा। समूह की रकम का सदा सदुपयोग करेंगे।
16. अगर सदस्य किसी कारणवश समूह को छोड़ना चाहता है, अगर इस व्यक्ति ने ऋण लिया है तो समूह को वापिस करना होगा तभी समूह को छोड़ सकता है अन्यथा नहीं।
17. ऋण का उद्देश्य रकम की चुकोती का समय ऋण की किश्त और ब्याज की दर बैठक में तय की जाएगी।
18. आपातकालीन स्थिति के लिए प्रधान व सचिव के पास कम से कम 1000 रुपये की राशि होनी चाहिए।
19. स्वयं सहायता समूह के रजिस्ट्रर को सभी सदस्यों के सामने पढ़ा व लिखा जाना चाहिए।
20. ऋण लेने वालों को एक सप्ताह पहले की सूचना देनी होगी।
21. ऋण जरूरत के समय सभी सदस्यों को मिलना चाहिए।
22. अगर सदस्य बिना कारण से समूह को छोड़ना चाहता है तो उस सदस्य की जमा रही समूह में बांटी जाएगी।

23. समूह को अपनी मासिक रिपोर्ट प्रति माह तकनीकी क्षेत्रीय इकाई (Field Technical Unit) के कार्यालय में देनी होगी।




निमर्ला देवी
प्रधान



गीता देवी
सचिव



खीलामणी
कोषाध्यक्ष



रेवा देवी
सदस्य



बिमला देवी
सदस्य



मनोरमा देवी
सदस्य



कविता देवी
सदस्य